

May10, 2022

То	То				
The Manager	BSE Limited				
Listing Department	Corporate Relationship Department				
National Stock Exchange of India Limited	1 st Floor, New Trading Ring,				
'Exchange Plaza', C - 1, Block G,	Phiroze Jeejeebhoy Towers				
Bandra-Kurla Complex,	Dalal Street				
<u>Bandra (E), Mumbai 400051</u> .	<u>Mumbai 400001</u>				
Scrip Code: INDOCO	Scrip Code : 532612				

Dear Sirs,

Sub : Intimation of Notice published in newspaper under Investor Education and Protection Fund (IEPF) Rules- Transfer of shares to IEPF

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations 2015, we enclose the following documents:

- i. Copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Mumbai Lakshdeep (Marathi)
- ii. Copy of reminder letter to the shareholders.

The above reminder letters were sent to the shareholders who have not claimed their dividends for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to IEPF Authority.

This is pursuant to Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

The above information is also available on the website of the Company www.indoco.com

This is for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully, For INDOCO REMEDIES LIMITED

Company Secretary & AVP (Legal)



INDOCO REMEDIES LIMITED

Indoco House, 166, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai 400098, India. Tel. No.: +91 22 6287 1000 / 6879 1250 = CIN: L85190MH1947PLC005913

20

(Indeco

INDOCO REMEDIES LIMITED

Regd. Office: Indoco House, 166 CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400098 Tel: 62871000 / 33861250 Email : compliance.officer@indoco.com Web : www.indoco.com CIN : L65190MH1947PLC005913

NOTICE

For the attention of Equity Shareholders of the Company

This Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Retund) Rules, 2016 as amended to date, the shares, on which individend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more and which are liable to be transferred to the Investor Education and Protocion Fund (IEPF), a Fund constituted by the Government of India under Section 125 of this Companies Act, 2013.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholder and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its wobelies www.indoco.com under the heading "Investors – Unpaid dividend IEPF Suspense Account- Shares". The shareholders may further note that the details upload by the Company on its webelies shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPS Suspense Account pursuent to the said Rules.

Please note that in order to comply with the aforesaid Rules for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspence Account, the Company would issue duplicate share Certificate(s) in lieu of the original share Certificate(s) held by the shareholder physically. For shares held in Demat mode, the Company will follow the process as laid down under the said Rules. Upon such issue of duplicate share certificates, the original share certificates which stands registered in their names will stand automatically cancelled and will have no effect thereafter.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 30, 2022 the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the said Rules, transfer the shares to the IEPF Suspanse Account by the due date as per procedure stipulated in the said Rules without any further notice.

Sharehokiers are requested to claim their unclaimed dividend at the earliest by submitting the written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled checue to Link Intime India Pvt. Ltd, Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) or at the registered office of the Company.

In case the shareholders have any query on the subject matter; they may contact Link Intime India Pvt. Ltd (RTA) C-101,247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400 083 or the Company Secretary at the Registered office of the Company or by email: <u>compliance.officer@indicco.com</u>. Telephone No: 022-68321400. By Order of the Board

For Indoco Remedies Limited

Srd Piece: Mumbai Jayshan kar Menon Date: May 05, 2022 Company Secretary & AVP Legal



What will be the road ahead for stock markets after RBI's 40-bp repo

rate increase?

MUMBAI | THURSDAY, 5 MAY 2022 Business Standard



गुरूवार, दि. ०५ मे २०२२

मुंबई लक्षदीप 🔇

									1997 - L. L.	
		वापरलल्या वस्तूच मुल्क व्यापराच्या सालाची स्वरेटी	1 85, 386.05	\$2,868.06		AX,XXZ_00		्र वास्त्रविक मालमना	280,28	200.38
		व्यापाराच्या सालाचा खरदा पर्ण वस्तंच्या पार्टीतील बदल, चाल कार्यं व व्यापारातील साठा	429.30	(803.04)	25.9	(885.35)	¥,67 220.47		1.000000000	(755)7.5
		पूर्ण वस्तूच्या चादाताल बदल, चालू काव व ज्यापाताल साठा कर्मचारी लाभार्थ खर्च	698.91	(404.04)	1406.44)	3.880.80	3,933.89		120.000 20.	10000-000
Chamica sta		कनपाय गामाभ खप विसंव खर्च	603.51	50,05	89.93	305.60	302.52	- युत्तवाधून अन्द्र	8500.54	\$884.90
100 001		यसारा व जसलीयोग्य खर्च	369,98	808.48	366.05	2,5+2,22	1.420.32	Carrier Contractor Contractor Contractor	\$'#o	6,30
इंडोको रेमेडीज लिमिटेड		इतर खर्ष	2806.26	2282.60	28.9085	\$3.995	33,4390	इतर सा-पास्तविक विशीय मालमज्ञा	\$20.25	\$80.08
	3	एकुम खर्ग (४)	20828.93	84666.93	\$3.00329	\$ 5446.70	42058.68	इतर ना-यास्तनिक मालमता		
रिगोकृत कार्यालय : इंडोको डाऊस, १६६ सीएसटी रोड, कालिना, स्रांताकृडा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८.	4. 3	अपवादात्मक बाब व करपूर्व नफा (३)-(४)	8486.20	8643.48	1588.54	30.0738	4988.29	एकूण ना-वास्तविक मालमत्ता	28660.95	20464.48
बूर. : ६२८७१०००/३३८६१२५० ई-मेल : compliance.officer@indoco.com वेवसाइट : www.indoco.com सीआवाम : L85190MH1947PLC005913		अपवादात्मक बाब	-	5	-			वास्तविक मालनत्ता	11.00 A 200 A 31.	
esemps : www.indoco.com eiseleie: LBD isome 1947 PLC000813		कर खर्चपुर्च नफा (५-६)	2485.20	8543.48	1288.64	20.0758	4388.23	वस्तूंची यादी	\$3498.cx	\$2,62858
सूचना		करखर्च			10000000			वित्तीय मालमता		
कंपनीच्या समभागधारकांचे लक्ष वेधन घेण्यासाठी		चालुकर स्थगित का	339,42	836.53	858.86	\$ \$03.80	1805.96	वास्तविक गंतवागुक	300	1900
A		स्थागत का मागील वर्षाकरिता अगवका तजवीज	(23.55)	15,57	4.84	(84.46)	96.05 283.68	SIR MARTIN	22933.66	9346.89
गन्मा काग्यदा, २०१७ चे अनुच्छेद १२४ (१) व गुंतवणूकदार गिम्रण व संरक्षण निर्धी प्राधिकारी (लेखा. खाणजियन, इल्लोगरण व परवाया) विषम, २०१६, तारीखवार सध्यति योण्या अंतर्गत आद्वारे स्पर्धन देण्यात येव		मानाटा जनाकाता जावका तवाजान कालावधीकरिता निष्कृळ नका (७-८)	8230.46	\$200.24	\$\$.985.7	3559.90	3034.00	रोध आणि रोख लल्सम	110-0-0-0-0	
खापराधन, हल्लातण व परतावा) जिन्म, २०१६, ताराखवार मुप्पारत याच्या अकृति आद्वार सूचना दण्यात यत राहे की, लागोपाठ सात वर्षे वा त्याहर अधिक काळ प्रश्नानित न झालेल्या वा शवप्रतित राहिलेल्या लाभाणामंदर्भात		इतर सर्वकष उत्पन्न	1110.11	2104112	2122-12	4443.30	4044.00	Contract of the second s	8,50	\$98,98
१९ को, तरागांच सत्त वर्ष वा त्याङून आपने कोळ उदानवे न झातांच्या या दावरत्वा प्राइतराचा तांचारासद्य त वं ग्रेअसंचे गतवगुरुद्वार शिक्षण व संस्थण सिधी (आर्थ्यक्रीण्य) – कंगन्या कायदा, २०१३ व्या अस्पर्वेद १२५		अन् १, बाब जे नफा किंवा तोटामध्ये पुनर्वगीकृत केले नहीं।	888.46	105.7509	605.40	2623.85	19980.83	रोख व रोख तल्सम व्यतिरिक्त बँक विग्रहक	26.36	38.65
तर्गत मागत सरकारतारे संस्थापित एक निधी, येथे स्थानांतरण काण्यात येईल.		२. बाबसंबंधी आयकर जे नफा च तोटामध्ये पुनर्वगीकृत केले नाही	(382.04)	(*0000000) #	(80.08)	(\$5.005)	(22.94)	कर्ल	२६,९०:	86.98
हा निवर्णातर्पन न्या धागपारकांचे शेअसं आपर्दपीएक सम्प्रेन्स अकाऊंटपाणे स्थानांतील करण्यान चेन आहेत अश		भ. १, बाथ जे नका किंवा तोतामध्ये पुनर्वगीकृत केले			- 00 - Q1	S	10.00	इतर वास्टविक वित्तीव मालमता	392.40	\$84.2
यः गण्डनावना न्यः मागवाः कान् शत्रातः आन्द्रभाएतः एतनमा अन्नात्रात्राण्डनं व्याणातातं मद्यपति स्व अत्यतं अग्न भवित भागधारकांगं कार्यनीतं त्यांच्या नवीनतम् त्वत्त्वयं पत्यावरं पत्रव्यवहाराद्वारं काठवित् अप्रे. आयर्थप्रीरण्ड		२. बाबसंबंधी आयकर जे तफा व तोटामध्ये पुरुर्धगीकृत केले		8				अन्य ज्रास्तचिक मालमता	84999.000	2452.29
योग्स अक्साऊंटपच्चे स्थानांत्राणासंदर्धात आगे भाषधारक व त्यांच्या ग्रेअर्सचा तपशील कंप्रवीने त्यांची चेबासहट		कालावधीकरिता इतर सर्वकथ उत्पन्न	59.90	495.7365	084.07	2404.98		वास्तविक कर मालमजा (निव्वळ)		2
ww.indoco.com भा Investors-Unpaid Dividend - IEPF Suspense Account - Shares शीमीतर्गत		कालावधीकरिता एकून सबैकव उत्पन्न (९+१०)	20.0959	2868.86	8008.98	EQUE.OX	\$655.55	एकण वास्तविक मालमत्ता	20243.90	28498.21
ग्यलीड फेलेला आहे. भागधारकांची पुढे बॉट ग्यांची की, कंपनीडप्रे त्यांच्या वेषसाइटवर अंचलोड करण्यात आलेला		भरणा केलेले समधाग भांडवल (३.५/- दर्शनी मूल्य प्रतिभाग)	8588.88	\$\$66.86	1288.8E	\$566.86	8568.86	एकण मालमता	48080.60	84209.04
रगील ही मदर नियनांतर्गत आयर्थपीरफ संखेन्म जकाऊंटमध्ने प्रोअर्थंचे स्थानांतरणकरिता कंपनीद्वारे ड्युपिलकेट		उत्पन्न प्रतिभाग (१.५/- दर्शनी मूल्य प्रतिमाग) (वार्षिकीकरण नाही)	1000	15522	8.55	1277724	and a second	सम्रभाग व दापित्व	1324-545	
अर प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासंदर्भात योग्व तो सूचना समजावी,		मूळ सोमीवृत्त	8.95 8.95	¥.54 ¥.54	8.44 8.65	<i>९४.९२</i> १४.१२	28.39 28.39	सम्भाग		
वा नोंद प्यांबी की, आयर्डपीएक सम्पेन्स अकाऊंटप्रध्ये क्षेअसंच्या स्थानांतणाकरिता वरील नियमांच्या अनुषंशने			2255			40.84			step up	
नी भागभाषमंड्रारे कागदीवत्री स्वरूपान भारण केलेल्या यूळ शेअर प्रमागपत्राच्या बरल्यान झ्युप्लिकेट शेअर प्रमागपत्र		३१ मार्च, २०२२ रोजी संपर्ल	तेली वर्षाकरि	ता रोखस्रोत	अहवाल		(इ. लाख)	समभाग भाडपल	\$999.85	<i>१२९९,४</i> 1
री करील, डीमॅट स्वरूपात धारण करण्यात आलेल्या श्रेअर्मच्या संदर्भात सटर नियम्त्रंतर्गत विहित प्रक्रिवेचे कंपनी				३१ मा	र्थ, २०२२	३१ माथ	19098	इंशर समभाग	34680.98	\$\$955.80
लन करीलः, इंयुप्लिकेट शेखर प्रमाणपत्राच्या अशा जिनल्पायरनात, त्यांच्या नावे असलेले मूळ रोखर प्रयाणपत्र त्वोद्याप पर ठोल च तत्परचात त्लाचा कोणतारी प्रभार राजपार वात्री.				रोवी स	पलेले वर्ष	रोजी संग	रलेले वर्ष	इतर समभाग	\$2\$89.80	\$\$080.97
	३१) कार	र्वचलीत प्रक्रियेतन सेख खोत						दायित्व		
 ३० ऑगस्ट, २०२१ पर्वत संबंधित मागसारकांकडून कंपनीला कोणनाही प्रसलस्वहार प्राप्त न झाल्यांग, सदर 	विशोग स	सधारण बाच व करपुर्व सिव्वळ नफा/ (तोटा)		2	30.0738		4388.28	ना-वास्तविक दावित्व		
स्पर्गतनेत विहित अवस्यकतांचे पालव करून कंगनी पुढील कॉणतीही सूचना न देता सदर निवर्णातगंत विहित प्रक्रिनेनुसार	समायोज	तन: 		3	30.0753	30	4388.98	ना-मास्तविक दावित्य विसीय दायित्य		
वर्षावर्तन बिहित आवस्पलतांचे पालव करून कंपनी पुढील कोणतीरी सुचना न देवा सहर निवसांतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार व्यत तरखेपप्र्यंत कंपनी सहर शेआर्थवे आवर्षेपीएक साम्पेन्स अव्यउंत्यंपांचे ग्यानांतपा करील.	<u>सभायो न</u> चसारा अ	त् <u>नः</u> आणि यस्तीवेग्व खर्च			१८९७.७८ १६०९.२२		4389.28 8463.29		2	
यमांवर्गत विहित अवसलकांचे पातर करून कंपनी पुर्व्होत कॅमतोती युच्चना न देता स्टर नियमांतर्गत विहित प्रक्रिमेनुसार बत तारखेष्पर्यंत कंपनी सटर शेअर्थावे आवर्ष्यीपरू सप्पेन्स अस्टाउंट्यपंत्रे स्थानांताण करीता. वारतित लामांत्रसाहती शाव करण्यासाठी मागपारकांते कृपया लक्कारत लवकर पेर काईची स्व-साधावित प्रत. ११	<u>समायोज</u> घसला अ विश्मिय	तनः आणि यसुर्लीयम्ब खर्च १ ४२ ((लाम)/होटा						चित्तीय दायित्व	1991/98	1498.0
व्यांग्रेडी बिहिस अवस्थककों पालन करून केम्सी पुढील कोणतीरी पुत्रमा ने देश प्रावर नियालगंड चिरित प्रतिनेमुसार का तरक्षेयले कंपनी सह रोआवीर आवर्डीपिय सामेन्सा अवजंडरपांक ध्यांगताला कतित. बारतित लाधांगासाठी दांश करण्यासाठी माध्याप्रकों कृष्णया लक्ष्यात लेक्सात लेक्स पीर कार्डवी स्वन्य साधीवल प्रत, 18 तेल्ला करवोत्ताची का बांग्यापालेका लिखित अपने सिंह कराइया हीक्रा प्रा. ति रक्ष्यांचे पीर्वस्टा व दायाच्या	समायोज घसला अ विसिमय ज्यान उल्	तनः आणि वसुद्वीयेग्य खर्च १ दर (लाभ)/होश: तत्म			१६०९.२२		1963.29	वित्तीय दायित्व उधारी	₹\$ % %?₹	1998
व्ययंतर्थत बिहित आवायकलांचे पालद करून कंपनी पुढील कोणतीरी मुख्या न देशा प्रदर निवार्थतर्थन चित्रिक प्रक्रिनेमुसार का ताक्रेक्वेश्वर्य कंपसी तरह तेआकी आवर्डीयिप्त सामेश्वन अव्यर्जदायके ध्यायात्राण करिल. व्यारित लापांशाला देश कार्यप्रकारांची भाषपारकांके कृपया लंकरतात लंकरा पर कार्य्य तेन नामांकिल प्रत, रह तंत्र्या वरादेशला चे प्राप्तायकी तालिया अत्रे लेक इत्यराप्त दिक्रा प्रा, ति., कंप्रतीचे परिस्ट्रा व रायलज्ज वेट (आरटीप) यांग विध्या कंप्रमीच्या मेंहण्यंतृत्व कर्यातवात पाठवाती.	समायोज घसला अ विस्मिय ज्यान उ भावे प्राप्त	तत्र - आणि समुद्धीयम्ब श्वर्च १ १८ (लाभ)/लेटा १९९म म			8808.22 888.26) (88.64) (42.60)	(१५८७.२९ २४१.७९) (२३.९९) (५०.७३)	वित्तीय दायित्व उधारी इतर	889X.98 8833.94	1998.60 299.69
त्यावहेकी विशिक्त प्रत्यावकानी पायल सरन अपनी पुढीन केफांती मुख्या ने देशा प्राप्त निकारतांत पिहित प्रतिनेमुसार का ताव्येष्पति भाषेत्री सार रोआर्थी आवर्षीएक सामेन्सा अस्प्रांट्रव्याने व्यातांताण कतित. वादारिक साधांतालांद्र प्राप्त का क्यायांत्राओं कुपर ताव्यकार सरक्षर पेरे कार्टरी सन-मासांकित प्रत, रह तेल्वा वर्ताद्रपार्या प्रत मांच्यायांत्रेकी सिंदीका प्रतने सिंक इस्टायूस हरिता प्रा. सि., चरलीचे पंतिराय व राताव्य वेट (आटटीश) यंका विश्वा कंपनीच्या मोहणेकुन कार्याताल पाठवाती.	समायोज पसला अ विसिमय ज्यान वा भावे प्राप्त सजांक व	हता आणि प्रमुद्धियेय खर्च दर्शन १९९७ १९९४ १९९४			9509.22 888.26) (68.24) (42.50) 966.29	(१९८७.२९ २४१.७९) (२३.९९) (५०.७३) ७०.५३	विद्यीय दायित्व उधरो इतर सारेतत्व दायित्व तरहुदी	88%888 88727.94 30%.98	250.4
व्याहरीक विश्वित अवायमकवांचे पालय स्कन्त कंपसी पुढील सोमातीती युद्धाना व देखा प्रदर निवाशकों विश्वित प्रक्रिनेमुसार का तत्वरुपेवर्थन कंपती ताल गोआगी आवार्षीपाल सामेगना अवराज्यत्वराय व्यावनांवाण स्वरीता. वातरित लागांतराजाती दावा करण्यावादी आगापारकोंकी कृपदा लक्ष्वभाव लक्ष्यन पर कार्यनी सक-मासावित प्रज्ञ. रह तेला नवरांत्रणों दावा संप्रत्याप्रेवरी आगापारकोंकी कृपदा लक्ष्यतात लक्ष्यन पर कार्यनी सक-मासावित प्रज्ञ. रह तेला नवरांत्रणों दावा संप्रत्याप्रवादी आगापारकोंकी कृपदा लक्ष्यता प्रतिका प्रा. लि., संपत्नीच में सिरपूरी व ट्रालयज हर (आरटपि) स्वर्तन विज्ञा कार्यनी जोवा सेवलाक वार्यवाची. इ. विषयाम्प्रदेश्वी भाषाराकसंचा साही गोसा आगामता से लिस इंटलव्या युवित्र प्रा. लि. (आरटपि) पत्ता मौ १९. त्रथ्यासी स्वर्तना मार्ग विज्ञानी स्वर्ण, त्रिज्ञ क्यांत्राचा राख्याती.	<u>समायोज</u> घसला ३ विस्मिय ज्यान उ माहे प्राप्त सन्पर्क ³ मिलेखिल	तताः वारि समुद्रतियोग्य खार्च १ इट (१९१२) / लोधा तलग = व्यापार आणि इतर प्राप्त वन्त्रपूर्वी तरहृद्द त इतर तस्तुर्व			8508.22 888.26) (58.24) (42.50) 865.29 209.82)	(१९८७.२९ २४१.७९) (२३.९६) (२३.९६) (४०.७३) ७०.५३ (५.३०)	विद्यीय दापित्व उपाते इतर धाडेतत्व तांपित्व तत्वर्ता स्थगित का दापित्व (निव्वक)	8398.98 8833.94 308.98 9483.88	२९७,५१ १२१०,७
ध्यांस्तुत्र विदेश अदासकती पारस करन भाष्य पुनीन से मार्गती युद्धान रहेता हुन सिमायंत्रति विदिव प्रतिनेतुमात का तरक्षेप्रते कंपनी सह गैआले आर्थवीरक मार्गना अंग्राउंटप्रके प्रधानांत्रण सीता. वार्थतिक सार्वातासांत्री शत्र करपायाती पारपासंदर्भ कृपण तरकरात्र उत्करम पे कार्यते पि स्व-ताधावित प्रत, रह वोत्तेल सार्वातासांत्री शत्र करपायाती पारपासंदर्भ कृपण तरकरात्र उत्करम पे कार्यते पि स्व-ताधावित प्रत, रह वोत्तेल सार्वातासांत्र वार्थ मार्गना प्रति क्रिसित प्रत ते सिंह इत्याहम प्रतिम छा, हि., पंगलीचे परिवरण य रागला १९ (अर्थराट) वार्ता क्रिसित मार्गत क्रिसित प्रति क्रिसित प्रत त्रिक्त प्रति प्रत हित्य प्रति क्रिसित प्रति क्रिसित १९ (अर्थराट) वार्ता क्रिसित मार्गत क्रिसित आंधात्र प्रार व्याही १९ (अर्थरायंत्री क्रिसित मार्गत, क्रिसेती (प्रत), त्रेष्ये – ४००० २३ पेचे सिता भन्दी प्रविचयां नार्गना विधिवस कार्यानां १९ (क्रास्ट) वार्ता क्रिसित मार्गत, क्रिसेती (प्र.), त्रेष्ये – ४००० २३ पेचे सिता भन्दी प्रति प्रत विधिव कार्या	समायोज घसला अ विश्मिय म्यांच उ माहे प्राप्त स्तांचित स्यांची म	तन् - आगि मसुदीकोय खर्च रहर (रागन) / गेठा रागम म व्यापार आगि इतर प्राप्त नस्तूर्ची तरहूद त इतर तरहरू पालनेप्रेया विश्वविधालि (रागन) / तोठा			(505.22 888.26) (58.24) (42.50) \$55.29 205.83) (52.54	(8429.25 285.96) (28,86) (40.05) (40.05) (4,30) (2,90)	ৰিত্তীৰ আছিল তথ্য হল আইকৰ সাহিন্দ আইকৰ সাহিন্দ আইক কা আইনিক (নিজ্ঞান) হল মানা-আইকি নিৰ্ভাগ হাছিল	8892.98 8833.94 308.98 8433.88 38.03	250.41 5250.41 5250.41 52.21
व्यांसेक विशिष्ट अवस्थकत्वी पारस करन नेमनी पुढीन केमांत्रीनी युद्धान र देश एड. विमार्जने विशिष्ठ प्रक्रियेतुमार सा वार्वप्रपेत पंतरमी सह सेफले आवादिताल मामेना अच्याउंदयके व्याजांत्रण कतिन. तार्वित सापोलामाई के बारस्थानां प्रापालांकों कृषण त्यारकता करका रेग कार्डने विक नोमांवित यह, रह तेला वर्वादान्त्री इन संपत्ताप्राचेत्र निश्चित्र अर्थ सिंहक प्रदास इंडिया छा, हिं., पंतर्वाचे संतरहा व ट्रान्स्व ४ (आदरीर) दांसा किंगा कंसरिया में हिन्दे अर्थ सिंहक प्रदास इंडिया छा, हिं., पंतर्वाचे संतरहा व ट्रान्स्व ४ (आदरीर) दांसा किंगा कंसरिया में हिन्दे अर्थ सामाया के लिंक इत्युवम इंडिया छा, हिं., पंतर्वाचे संतरहा व ट्रान्स्व १ (आदरीर) त्यांसा किंगा कंसरिया में साम्या के सिंह इत्युवम इंडिया छा, हिं., पंतर्वाचे संतरहा व ट्रान्स्व १ (आदरीर) त्यांसा किंगा के निक्रों ते (में, क्रियोंनी (म.), पुंची – ४४० २८३ रेवे सिंहा केमनी दर्शियन्त कार्माच्या ते होन्ह कर्षालेत्य किंवा ई-पेलर <u>comptiance officer@indecc com</u> इंगे किंवा ट्राव्वी छ. । c२२ (८२१९४७ सा इंग्रेस साम्य)	समायोज प्रसारा अ विश्विमय माडे प्राप्त सहाकि मिलॅथित स्थापी म यिस खब	हता आणि यसुदीयोग्य खर्व रहफ हरफ इस युपार आणि इतर प्राप्त वस्तूची तरबुद त इसर स्यपुदी नारव नेष्थ्या विश्वीयरिल (रहाभ)/दोठा ब			8508.22 888.26) (58.24) (42.50) 865.29 805.89 825.89 283.89	((140.25 26(.01) (22(01) (24.95) (40.93) (14.20) (14.20) (200.25 20(.54)	वित्तीय दाशिल उथरां इत याईलय राधित्य राष्ट्रवी स्वरील क दाधित्य (निजक) इत रा-नाम्सलिक तेनीय दाधित्व यूट्य रा-नाम्सलिक दीयित्व	8398.98 8833.94 308.98 9483.88	250.41 5250.41 5250.41 52.21
प्रांतनेत विशि आदासकांची पराव करन अस्त्र प्रांती गुद्धाने संप्रांती युद्धान व देशा यहा विभागतेन विशि प्रक्रियेमा ता तारक्षेप्रति अंपनी सार गिआनंचे आवंधीएक मामेला अव्याउंटप्रवेस प्रात्ताला करिता. विशित मानाशासांकी द्वारा अव्यापाले की प्रांता के प्रांता तारकार वनकार पर काइंचेने प्रक्र निक्रास्त्र ता तिता आर्वहासांकी द्वारा अव्यापाले की प्रांता के सिंह काठावा नवकार पर काइंचेने प्रान्ता होता. ही प्रारंपर के की प्रक्रा अव्यापाले के प्रांता के सात काठावा नवकार पर काइंचेने प्रान्ता होता. ही प्रिवस्त्रांत्र प्रात्ता कार्यवासा में राज्य कार्यवासा कार्यवासा ही विषय अंदर्गता आत्र प्रात्ता के प्रात्ता के प्राता के कार्यवास के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के त्र ही विषय अंदर्गता आत्र प्रात्ता के प्रात्ता के कार्यवास के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात ही विषय अंदर्गता आत्र प्रात्ता के प्रात्ता कि प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता कि प्रात्ता कि प्रात्ता कि प्रात्ता कि क्रात्ता के प्रात्ता क्रिय के प्रात्ता कि दिव के प्रात्ता कि प्रात्ता के क्र के प्रात्ता कि क्रांता के प्रात्ता के प्रात्ता कि प्रात्ता के दिव के प्रात्ता के दिव देश के रात्ता के क्र दिव के दित के दिव के प्रात्ता के प्रात्ता के प्रात्ता के क्र दित के दिव दिव दित दिव दित के प्रात्ता के त्र के त्र के त्र जित के त्र त्र व्यत के त्र त्र त्रिय दिव के प्रात्ता के क्र व्यत के दिव दिव के दित दिव दित के दित के क्र दिव के प्रात क्रात्ता के क्र दित के दित के दित के प्रात्ता के त्र त्र त्र त्र त्राता के त्र त्र त्राता के क्र के त्रात्ता के क्र के क्रात्र के त्र त्र क्राता के क्र के त्र त्र त्र त्र त्र त्र क्र क्र क्राता के क्र क्र के क्र त्र त्र के क्र त्र त्र त्र त्र क्र क्र क्र त्र क्र त्र त्र क्र क्र	समायो न पसारा अ विस्मिय ज्यान उ माहे प्राप्त स्वार्थक स्थार्था प विस ख्या पुंतनपूर्व	तनः आगि ममुद्दीयोग्य खुर्च हर (१९१९)/मोटा १९१४ म म ब हरत समुद्दी नासानलेप्या चिक्रीमरील (१९१४)/सोटा ब भेष्या निक्रमिस तोटा/(१११४)		(1	8505.77 888.76) (58.64) (49.50) 855.69 875.84 995.84 995.84 (4.07)	(8429.25 285.96) (28,86) (40.05) (40.05) (4,30) (2,90)	वितीय साहित्य उथरो इत शहद नारित्य राहुम सर्वात कर दरित्य (निजक) इतर ना-साहनेक दिवेद पहुछ ना-वास्तनिक दादित्व पहुछ ना-वास्तनिक दादित्व	8892.98 8833.94 308.98 8433.88 38.03	२९०,५ १२१०,७ १८.२
व्यावहेन विशिक्त प्रतायकवांचे पायत स्वत- भयता पुढी- केफोती मुख्या ने देवा यहा मिनावांन पिहित प्रतिनेमुसा का ताखेप्पीन भंगरी सह रोआर्मेच आवर्षीएक सामेमा अच्याउंट्यांने व्यातांताण कतित. वार्वाहे वार्याप्ताची प्रदा कंप्रवादीया पायांपांडले पुरार ताक्यात त्यावर में वार्थ्य में कार्टन में न मार्थवित प्रत. ११ तेल्वा वार्वाहपाची प्रत मांच्यापांत्रकी प्रार्था तीक इस्टायम इंडिमा प्रा. कि. चंग्रलीचे पंतिरा व रागाजा वेंट (आटरीश) यंता विधा कंपनीच्या मेंट्रामेंजन कार्याताल पाठवाती. हा विषयाकदेवी मार्यापालमा मांच्या केपनीच्या आपनी कि इस्टायम इंडिमा प्रा. कि. व्यातीचे पंतिरा व रागाज्य वेंट (आटरीश) यंता विधा कंपनीच्या मेंट्रामेंजन कार्यापाल ते कि इस्टायम इंडिमा प्रा. कि. व्यातीचे पंतिरा व रागाज्य हे (आटरीश) यंता विधा कंपनीच्या मेंट्रामेंजन कार्यापाल वें कि इस्टायम इंडिया प्रा. जि. (आटरीश) पता पी १९४७, रायांक, पराणीक, पात्र, विधा के आपना के ते कि इस्टायम इंडिया प्रा. जि. (आटरीश) पता पी १९४७, प्राण्ड, प्रत्यांक, पात्र, विधा के (भा), प्रंच – ४००० ०२३ यंत्र किंपा कंपनी मंचिवर्या कंपनिया १९४३, १९४७, प्रार्थ, प्राय्वी क्या स्वत्य क्या क्याता क्यात्र कि क्यात्र क्या केपा केपा के क्या देवर्य कंप्र १९४३, भारत क्या से क्या इंडिया केपा के क्या क्यात्र क्या केपा क्या क्यात्र के क्यात्र क्या केपात्र क्या केपा क्या केपात्र क्या क्या क्या केपा के क्या देवरा क्या किया क्या कि क्या देवरा कंपात्रिया इंडोको सेवरीज निर्वाहर व्यात्र क्या क्यात्र क्या क्या केपात्र क्या क्या क्या क्या केपालक क्यात्र इंडोको सेवरीज निर्वाहर व्यात्र का क्या	सथायो न प्रसारा ३ विश्विम् भावे प्राप्त सहाक २ निर्होणित स्थार्चा म दिस ख्या पुंतवरपूर्क साथांश	तन् - आगि ममुद्दीकोय स्वर्जे रात्मज्ञ म व्यापा आगि इतर प्राप्त नम्तूची तरहुद त इतर त्यद्वते नावनकेया विक्रीवर्गल (शाम) / लोटा ब बीच्या विक्रीवर तोटा/ (लाम) उत्तव		(1	8508.22 882.26) (52.64) (52.60) 255.64 269.83) 225.89 (20.02) (20.02) (20.02) (20.02) (20.02)	(75.02.79 282.42) (22.42) (22.42) (40.02) (40.5) (22.42) (22.5) (22.5)	वित्तीय दाशिल उथरां इत याईलय राधित्य राष्ट्रवी स्वरील क दाधित्य (निजक) इत रा-नाम्सलिक तेनीय दाधित्व यूट्य रा-नाम्सलिक दीयित्व	8892.98 8833.94 308.98 8433.88 38.03	२९७,५१ १२१०,७
यायतंत्री विर्णत अवाकलती पातन करन भवना पुली करेणती मुख्या नेदेश पादा मिनालांन विरित्र प्रतिमेतृता का तारखेपर्यंत कंसी सर रोआर्थेय आर्थपीरक मामेनस अव्याउंत्यमें स्वातांत्रण कति, बार्वात्रेश सार्थातात्र प्रित करसवात्राये पापायारकों कृषया तकस्वता स्वरूपत करीत. बार्वात्र सार्थातात्राय का सार्थ्यमाप्तकी तार्वित अने तिक इन्द्रायम प्रतिम प्रति किंदी प्रति मासाधिक प्रत, ११ तरना सर्वात्रपत्रों का सार्थ्यमाप्तकी तार्वित अने तिक इन्द्रायम प्रतिम प्रत, किंद प्रति मासाधिक प्रत, ११ देश (आरंट) श्रे की स्वार्थ कार्यमेश प्रति प्रतिक कार्यलाम स्वार्थका स्वार्थका स्वार्थका प्रत कार्यना प्रति प्रत का विषयात्र्यका सार्थ कार्यका सार्थे मुख्ये अपने तिक इन्द्रायम प्रति प्रत, किंदा प्रा, किंदा (आरंटी) एस ती का विषयात्र्यका सार्थका सार्थ निक्रों प्रत, रोच्च – ००० देश के किंता कार्यना ती पिर्वच कंस्तीया रार्थक्त कार्यात्रमा सरि, किंदा (प्रो, रोच्च – ००० देश के किंता करानी ती पिर्वच कंस्ती पार्थका कंस्तीया रार्थक्त कार्यात्रमा होते किंता (प्र, रोच्च – ००० देश के किंता करानी ती पिर्वच कंस्तीया रार्थक्त कार्यात्रमा होते किंता (प्र, रोच्च – ००० देश के किंता करानी ती पिर्वच कंस्तीया रार्थक्त करानी सार्थका तार्थका (प्रत क्रिय), स्वार्थ – कार्यका ती किंक इन्द्रायम होत्र स्वार्थ क्रित्र कार्यात्र इंद्रोको मेक्वेज कार्यात्रम	सथायोज घसता अ विभिषय ज्यान उ सर्वे उपास सल्दे प्राप्त स्वित्त रुप युंतनपहुं लाभाश बस्त्र्यूज्या बस्त्र्यूज्या वस्त्र्यूज्या	तनः आगि ममुद्दीयोग्य खर्च तरण = व्यापा आगि इतर प्राप्त मस्तूर्यी तायुद्द : त करा त्यार्थ्य त्यापा विक्रीयर्गील (राभ) / तोदा र्थ विच्या विक्रीयर लोदा/ (राभ) उत्याव यार्थार्थया सिन्दुद्		(1	8508,22 888,26) 65,64) 65,60) 855,69 82,84 82,84 (0,02) (20,62) 82,80 (20,62) 82,80	((1420.25 282(.05) (28,55) (40,53) (4,20) (4,20) (4,20) 205(52 (3,20) - 205(24	वितीय साहित्य उथरो इत शहद नारित्य राहुम सर्वात कर दरित्य (निजक) इतर ना-साहनेक दिवेद पहुछ ना-वास्तनिक दादित्व पहुछ ना-वास्तनिक दादित्व	8892.98 8833.94 308.98 8433.88 38.03	250,4 2720,4 26,7 26,7 2836,2
प्रावार्थन दिलि अयावस्वाये पारस करन कामी चुली केफोती मुल्या ने देशा पारा विकालांत पिहिल प्रतिमेमुसा राज तरकेप्से कंफी सह रोजमेंदी आवर्षीएक समेना अवग्रेदराव स्वातांत्राण कतित. प्रातीक सार्थामातांद्र हाक सरप्रसादी पाराधार्थने पुरा तरकार सरक्ष पर बाले साटे सेन-मासावित प्रत. ११ संतत्रा परादेशाची प्रत मांजमांक निविध अने सिंह क्राइम हरिता प्रा. सि., कंस्तीचे परित्रा व राज्याज्ञ संद (अग्र21) यंसा विधा कंपसीच्या मोलपिइन कार्याताल पाठवाती. (आर21) यंसा विधा कंपसीच्या मोलपिइन कार्याताल पाठवाती. १९४७, राध्यार्क, परवर्णांस माने, विकोली (प.), मंच्यां – ४०० ०८३ यंत्र किंवा कंपनी मॉपवर्या कंपनीचा कंप्र १८३२/४०० प्रातीक, व्याताल क्रांत क्रांत के स्वाताल पाठवाती. १९४७, राध्यार्क, प्रत्यांस माने, विकोली (प.), मंच्यां – ४०० ०८३ यंत्र किंवा कंपनी मॉपवर्या कंपनिचा १८३२/४०० पा संपर्क सार्वक, 1०२२ १८३२/४०० पा संपर्क साराय्या.	सम्यायो न चास्तरा अ चिनिमच च्यान उः मगदे प्राप्त स्वार्थ क म्यार्थ म विस् ख्या पुंत यपूर्ध ताभाश चस्तु यु	तन् - आगि ममुद्दीकोय स्वर्जे रात्मज्ञ म व्यापा आगि इतर प्राप्त नम्तूची तरहुद त इतर त्यद्वते नावनकेया विक्रीवर्गल (शाम) / लोटा ब बीच्या विक्रीवर तोटा/ (लाम) उत्तव		(1	8508.22 882.26) (52.64) (52.60) 255.64 269.83) 225.89 (20.02) (20.02) (20.02) (20.02) (20.02)	(75.02.79 282.09 282.69 (29.04) (20.04) (20.5) 29.100 (20.5) -	वितीय प्रापित्व उथर्ग इत भाइंतरवरायित्व सार्व्यत्र प्रतिस्थ प्रदेश नः नास्तविक दायित्व प्रदृष्ट नः न-वास्तविक दायित्व प्रास्तविक दायित्व वितीय दायित्व	x366°65 \$125'67 \$475'54 \$77'55 \$77'55 \$47'55 \$46'65	२९०,५ १२१०,७ १८.२



INDOCO REMEDIES LIMITED CIN: L85190MH1947PLC005913 Registered Office: Indoco House, 166 CSTRoad, Kalina, santacruz East, Mumbai 400098| Tel.: 022-68321400 Email: <u>compliance.officer@indoco.com</u> | Website: <u>www.indoco.com</u>

Date: May 05, 2022

Name of Shareholder: Folio No. / DP ID / CL ID: No. of Equity Shares:

Dear Shareholder,

Sub: Transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This is to inform you that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended to date, the shares, on which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Government of India under Section 125 of the Companies Act, 2013.

From the dividend reconciliation records of the Company it has been noticed that you have not encashed the dividend warrants for last seven (7) consecutive years commencing from the unpaid dividend for the year 2014-15 on the equity shares held by you in the Company. The details of dividend amount not claimed by you are as under:

Financial Year	Type of Dividend	Amount of Dividend lying with the Company (₹)
2014-15	Final	
2015-16	Interim	
2015-16	Final	
2016-17	Final	
2017-18	Final	
2018-19	Final	

Therefore, you are advised to claim the above-mentioned dividend(s) <u>on or before August 30, 2022</u> failing which the shares linked with such dividend(s) will be transferred to IEPF at appropriate date, without any further notice.

To claim above unpaid dividend or in case you need any information/clarification, please write to us or contact our RTA M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel. No.: (022) 49186270, email: iepf.shares@linkintime.co.in. Please provide following details in all your communications: (i) Name of the Company, (ii) Folio No. Or DP and Client ID, (iii) Name of shareholder, (iv) Contact No., (v) Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

After such transfer of shares to IEPF no claim shall lie against the Company or RTA. However, the Shareholders may claim the said shares by making an application to IEPF Authorities in Form IEPF-5 as prescribed under the IEPF Rules. The said form is available on the IEPF website i.e. <u>www.iepf.gov.in</u>.

Thank You

Yours faithfully, For Indoco Remedies Limited Jayshankar Menon Company Secretary & AVP Legal *This is computer generated letter & does not require signature